

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 12 फ़रवरी 2023

### प्रश्न -1

G20 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, स्पेस-20 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाना है?

- A) शिलांग
- B) नई दिल्ली
- C) इम्फाल
- D) गुवाहाटी

**सही उत्तर: A**

मेघालय के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा ने कहा कि G20 कार्यक्रम के तहत शिलांग 17-18 अप्रैल को स्पेस-20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके कि अंतरिक्ष साझेदारी देशों की अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान दे सकती है।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया है?

- A) USA
- B) भारत
- C) मिस्र
- D) ऑस्ट्रेलिया

**सही उत्तर: D**

ऑस्ट्रेलिया अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटा रहा है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके नए \$5 बिल में किंग चार्ल्स III की छवि के बजाय एक स्वदेशी डिजाइन होगा। लेकिन किंग को अभी भी उन सिक्कों पर दिखाई देने की उम्मीद है जो वर्तमान में दिवंगत क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की छवि रखते हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 12 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की गई है?

- A) महाराष्ट्र
- B) केरल
- C) कर्नाटक
- D) गोवा

**सही उत्तर: A**

पुणे में अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (ARI) के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट के ठाणे क्षेत्र में एक नए कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज की है। पठार का सर्वेक्षण करते हुए, टीम ने 24 विभिन्न परिवारों के पौधों और झाड़ियों की 76 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया।

### प्रश्न-4

‘मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल’ किस निम्नलिखित शहर में आयोजित किया गया था?

- A) भोपाल
- B) जैसलमेर
- C) नई दिल्ली
- D) पटियाला

**सही उत्तर: D**

दो दिवसीय मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पटियाला के खालसा कॉलेज के ऑडिटोरियम में किया गया। पटियाला हेरिटेज फेस्ट गतिविधियों के तहत मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह समारोह के मुख्य अतिथि थे।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 12 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-5

निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में थीम देश होगा?

- A) चीन
- B) भारत
- C) स्पेन
- D) USA

**सही उत्तर: B**

स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने कहा कि मैड्रिड में 2025 में मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को केंद्रीय देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान के तहत स्पेन ने बंगाल के पांच विश्वविद्यालयों को किताबें दान की हैं, जहां स्पेनिश भाषा पढ़ाई जाती है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है?

- A) गृह मंत्री अमित शाह
- B) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
- C) पीएम नरेंद्र मोदी
- D) उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

**सही उत्तर: B**

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है। कार्यक्रम का विषय 'सशक्त नारी सशक्त भारत' था, जिसका उद्देश्य उन महिलाओं की कहानियों को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना है, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और एक छाप छोड़ते हुए अपनी यात्रा को प्रशस्त किया है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 12 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-7

निम्नलिखित में से कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में थीम देश है?

- A) अमरीका
- B) चीन
- C) दक्षिण कोरिया
- D) स्पेन

**सही उत्तर: D**

46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन थीम देश है। 'स्पेन पवेलियन' में मौजूद देश में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाओ ने कहा, 'हम भारतीय लेखकों के साथ सीधा संबंध रखना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत इस पुस्तक मेले से बड़े पैमाने पर होगी।'

### प्रश्न-8

निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है?

- A) पंजाब
- B) महाराष्ट्र
- C) केरल
- D) गोवा

**सही उत्तर: D**

गोवा सरकार ने वनसाइट एस्सिलोर लक्सोटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ साझेदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम विजन फॉर ऑल गोवा नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम का विस्तार है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 12 फ़रवरी 2023

### प्रश्न-9

निम्नलिखित में से किसने जय जय महाराष्ट्र माझा गीत की रचना की है?

- A) अजय-अतुल
- B) सी. रामचंद्र
- C) दत्तात्रेय शंकर दावजेकर
- D) राजा बढे

**सही उत्तर: D**

महाराष्ट्र कैबिनेट ने 'जय जय महाराष्ट्र माझा' को राज्य गीत के रूप में नामित किया है। यह गीत कवि राजा बढेने लिखा था , जिन्होंने 1956-62 के बीच ऑल इंडिया रेडियो के लिए काम किया था।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी परमाणु टर्बाइन के पुर्जों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी है?

- A) आजाद इंजीनियरिंग
- B) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
- C) कर्मिस इंडिया लिमिटेड
- D) एल्गी इक्विपमेंट्स

**सही उत्तर: A**

हैदराबाद स्थित प्रेसिजन इंजीनियरिंग में मार्केट लीडर आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को परमाणु टर्बाइन के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन पुर्जों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में मंजूरी दी गई है।